



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2005/चैत्र 10, 1927

No. 8]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005/CHAITRA 10, 1927

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

आ.अ. 10(अ).—परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यहां पर संघ राज्य-क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया है) में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाए गए निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं:—

आदेश सं0 6

यतः, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8, 4 और 2 (च) के अनुसरण में भारत के राजपत्र और पांडिचेरी के राजपत्र के 8 अक्टूबर, 2004 के असाधारण अंक में प्रकाशित अपने 8 अक्टूबर, 2004 के आदेश सं0 1 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र में लोक सभा के लिए आंबटित किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या एक (1) होगी जिसमें से कोई भी स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या तीस (30) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए पाँच (5)

स्थान आरक्षित किए जाएंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा ।

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के साथ संघ राज्य-क्षेत्र के सह-सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होंने संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझावों को क्रमशः 25 अक्टूबर, 2004 और 20 दिसम्बर, 2004 तक आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के राजपत्र और पांडिचेरी के राजपत्र के असाधारण अंक में 8 अक्टूबर, 2004 और 8 दिसम्बर, 2004 को प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपवर्णित आदेश सं0 1 और आयोग के संदर्भित प्रारूप प्रस्ताव 9 अक्टूबर, 2004 और 8 दिसम्बर, 2004 को स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा और ज्यादा प्रचार किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 8 अक्टूबर, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसे बाद में 1-11-2004, 8-12-2004, 4-1-2005 तथा 25-1-2005 को परिशोधित नोटिसों द्वारा संशोधित किया गया था । इस सार्वजनिक सूचना में सभी आपत्तियों और सुझावों पर, जो 25 अक्टूबर, 2004 तथा 20 दिसम्बर, 2004 को या उससे पहले प्राप्त किये जा सकते हैं, विचार करने के लिए, सार्वजनिक बैठकों की तारीख, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 19 मार्च, 2005 को कराइकल में और 20 मार्च, 2005 को पांडिचेरी में सार्वजनिक बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को

पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ-साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया गया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने उपर लिखित आम बैठकों में दिये गये अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः, अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) और 4 (2) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) खण्ड (घ) के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :-

1. संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।
2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार, सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।
3. सारणी 'क' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0जा0)" द्वारा चिन्हित किया गया है ।

### सारणी-क

#### विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उनका विस्तार

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
----------	-----------------------------------	-----------------------------

#### 1. पांडिचेरी क्षेत्र

#### 1. मन्नादीपेट

मन्नादीपेट कम्यून पंचायत (भाग)—मनालीपेट, चेटीपेट, सुथुकेनी, पुडुकुप्पम, कादटेरी, कुप्पम, थेथामपाक्कम, कोडाथुर, कुनिचामपेट, मन्नादीपेट और वाडानूर

2. थिरुभुवानाई (अ०जा०) मन्नादीपेट कम्पून पंचायत (भाग)—सोरापेट, वाम्बुपेट, सेल्लीपट्टू, सनासीकुप्पम, कालीथिराथलकुप्पम, माडागाडीपेट, थिरुभुवनाई और थिरुवन्डारकोइल
3. औसुडु (अ०जा०) विलियानुर कम्पून पंचायत (भाग)—सेडारपेट, करासूर, थुथिपेट, थोंडामानाथम, रामानाथापुरम, पिल्लुईयार कुप्पम, कुडापाक्कम, उलावाइकल और औसुडु, कुरुमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)— 1 से 4
4. मंगलम विलियानुर कम्पून पंचायत (भाग)—अरियुर, किझूर, साथामंगलम, मंगलम, उरुवाईयार, थिरुकन्जी, पेरुंगालूर और मानाकुप्पम कुरुमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)— अरियापालायम बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) कोट्टामेडु बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) और कनुवापेट बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ )
5. विलियानुर कुरुमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)— गरुवाप्पानाईकेनपालागम बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), अरासुर बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), सुलतानपेट बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), विलियानुर बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), वाल्लुवानपेट बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), कारायानपेट बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), पेरियापेट बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), उथिरावागिनिपेट बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), अट्टुवाईकालपेट बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), थाट्टानचावासी बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), मानावेली बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), अरुमबारथापुरम बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) और ओडियामपेट बढा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 42
6. ओझुकराई ओझुकराई नगर पालिका (भाग)—वार्ड सं० 31 से 33 और 37
7. कादीरगामाम ओझुकराई नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 25 से 27, 35 और 36

- |     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 8.  | इंदिरा नगर   | ओझुकराई नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 21 से 24 और 28 से 30   |
| 9.  | थट्टानचावाडी | ओझुकराई नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 8, 18 से 20 और 34  |
| 10. | कामराज नगर   | ओझुकराई नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 13 से 17   |
| 11. | लासपेट       | ओझुकराई नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 7, 9 से 11   |
| 12. | कालापेट      | ओझुकराई नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 1 से 6 और 12   |
| 13. | मथियालपेट    | पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)—वार्ड सं० 1 से 4 और 6 से 8  |
| 14. | राजभवन       | पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 5, 9 से 14 और 16   |
| 15. | औपालम        | पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 18 से 23   |
| 16. | ओरलिअमपेट    | पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 15, 17, 24 से 26, 28 और 32   |
| 17. | नेल्लीथोप    | पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 27, 29 से 31, 33 और 34   |
| 18. | मोडलियारपेट  | पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 35 से 38 और 40   |
| 19. | अरियांकुप्पम | पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 39 और 41<br>पांडिचेरी (न०पा०+ बड़ा हुआ क्षेत्र ) (ओ०जी०) (भाग)—<br>अरियांकुप्पम बड़ा हुआ क्षेत्र (ओ०जी०), ककायानटोप बड़ा हुआ क्षेत्र (ओ०जी०), और पेरियावीरामपट्टिनम बड़ा हुआ क्षेत्र (ओ०जी०) |

1074 GI/05-2

20. मानावेली अरियांकुप्पम कम्पून पंचायत—मानावेली, अबिशोगापाक्कम, तावालाकुप्पम, पुरनानकुप्पम और थिम्मानाईकेनपालायम ।
21. एम्बालम (अ0जा0) नेट्टापाक्कम कम्पून पंचायत(भाग)—एम्बालम, कोरकाडू और करिकालामपक्कम  
बहौर कम्पून पंचायत (भाग)—अरंगानूर, किरुमाम, पक्कम, पिल्लाईआरकुम्पम और सेलिआमेडु ।
22. नेट्टापक्कम (अ0जा0) नेट्टापक्कम कम्पून पंचायत (भाग)—मदुक्कराई, करियामानिकम, इरिपक्कम, पांडासोज्ञानुर और नेट्टापक्कम  
बहौर कम्पून पंचायत (भाग)—पानायाडीकुप्पम, काराईयामबुथुर और मानामेडु ।
23. बहौर बहौर कम्पून पंचायत (भाग)—इरूलांसांडी, बहौर, ओटचीमेडू, पारिकालपेट, कुरुविनाथम, काडुवानुर और मनापट्टू ।
- 2—कराईकल क्षेत्र
24. नेदुनगाडू (अ0जा0) नेदुनगाडू कम्पून पंचायत—कुरुम्बागराम, पोन्बेथी, पुठाकुडी, नेदुनगाडू और मेलाकासाकुडी,  
कोट्टुचेरी कम्पून पंचायत—वारिचिकुडी (उत्तर), पूवम, थिरुवेट्टाकुडी, वारिचिकुडी (दक्षिण) और कोट्टुचेरी ।
25. तिरुनाल्लार तिरुनाल्लार कम्पून पंचायत—अम्बागाराथुर, नाल्लाञ्जुंडूर, थेवामापुरम, सोराकुडी, सुब्रायापुरम, कीझावूर, तिरुनाल्लार, थेन्नानकुडी, सेथुर, सेल्लूर और पेट्टाई ।
26. कराईकल उत्तर कराईकल नगर पालिका (भाग)—वार्ड सं0 1 से 5, 8 और 9
27. कराईकल दक्षिण कराईकल नगर पालिका (भाग)—वार्ड सं0 6, 7 और 10 से 17

28. नेरावी—टी. नेरावी कम्पून पंचायत— विझीदियुर, कीझामानाई और  
आर. पट्टिनाम नेरावी  
तिरूमालाईरायान पट्टिनाम कम्पून पंचायत—  
तिरूमालाईरायान पट्टिनाम, कीझाईयुर (उत्तर), कीझाईयुर  
(दक्षिण), पोलागम और वनजियुर  
कराईकल नगर पालिका (भाग)— वार्ड सं० 18

29. माहे 3—माहे क्षेत्र  
माहे नगर पालिका

30. यानाम 4— यानाम क्षेत्र  
यानाम नगर पालिका

### सारणी—ख

### संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र और उनका विस्तार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
-----------------------------------	-----------------------------

पंडिचेरी

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र

नोट:— सारणी 'क' में कम्पून पंचायत (सी०पी०), ग्राम पंचायत (जी०पी०), ग्राम, नगर पालिका (एम०), बड़ा हुआ क्षेत्र (ओ०जी) वार्ड अथवा अन्य क्षेत्रीय विभाजन के किसी भी संदर्भ का अभिप्राय उस कम्पून पंचायत (एम०), ग्राम पंचायत (जी०पी०), ग्राम, नगर पालिका (एम०), बड़ा हुआ क्षेत्र (ओ०जी), तथा वार्ड अथवा अन्य प्रादेशिक विभाजन के अन्तर्गत मार्च मास के 30 वें दिन को सम्मिलित क्षेत्र माना जाएगा ।

हस्ताक्षर

कुलदीप सिंह, अध्यक्ष

हस्ताक्षर

बी०बी० टण्डन, सदस्य

हस्ताक्षर

आर० नारायण, सदस्य

[सं. 282/पांडि०/2004-खण्ड-III]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

**DELIMITATION COMMISSION OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2005

**O.N. 10(E).**—In pursuance of sub-section (1) of Section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the following Order made by the Delimitation Commission under sub-section (2) of Section 9 read with sub-section (2) of Section 4 of the Act, in respect of the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory of Pondicherry (hereinafter referred to as UT) is hereby published.

**ORDER NO. 6**

Whereas, in pursuance of sections 8, 4 and 2(f) of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003(3 of 2004), the Delimitation Commission has, by its Order No. 1, dated 8<sup>th</sup> October, 2004, published in the extraordinary issue of the Gazette of India and the Gazette of Pondicherry on 8<sup>th</sup> October, 2004, determined – (i) the total number of seats in the House of the People to be allocated to the Union Territory of Pondicherry as one (1), of which no seat shall be reserved for the Scheduled Castes and also no seat shall be reserved for the Scheduled Tribes, and (ii) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the Union Territory as thirty (30), of which five(5) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and no seat for the Scheduled Tribes; and

Whereas, in pursuance of sub-section(1) of section 5, read with sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with itself the Associate Members from the UT with the proceedings for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the UT; and

Whereas, in pursuance of sub-section (2) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission published its proposals, along with the dissenting proposals of the Associate Members of the Commission who desired publication thereof, for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory, in the extraordinary issues of the Gazette of India and the Gazette of Pondicherry on 8<sup>th</sup> October, 2004 and 8<sup>th</sup> December, 2004, for



inviting objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 25<sup>th</sup> October, 2004 and 20<sup>th</sup> December, 2004 respectively; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission's Order No.1 mentioned above and the above referred draft proposals of the Commission along with the dissenting proposals of the Associate Members were also published in the local newspapers on 9<sup>th</sup> October, 2004 and 8<sup>th</sup> December, 2004 and given further publicity through radio and television and other media of mass communication; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section(2) of section(9) of that Act, the Commission also issued a public notice on 8<sup>th</sup> October, 2004, which was subsequently amended by its revised notices on 1-11-2004, 8-12-2004, 4-1-2005 and 25-1-2005, specifying the venue, date and time of public sittings to consider all objections and suggestions which may be received by it on or before the 25<sup>th</sup> October, 2004 and 20<sup>th</sup> December, 2004; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission held public sittings at Karaikal on 19<sup>th</sup> March, 2005 and at Pondicherry on the 20<sup>th</sup> March, 2005 and heard the members of the public and afforded them full opportunity of making oral and written submissions, in addition to the written representations already sent, if any, to the Commission; and

Whereas, the Commission has considered all objections and suggestions made at the aforesaid public sittings and/or received by it otherwise, in relation to its said proposals, in the light of the relevant provisions of the Constitution and the said Act;

Now, therefore, in pursuance of clause (d) of sub-section 2 of section 9 read with sections 2(f) and 4(2) of the said Act, as amended, the Delimitation Commission hereby determines as follows: -

1. The territorial assembly constituencies into which the Union Territory of Pondicherry shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of the Union Territory and the extent of each such constituency shall be as shown in **Table A**.

1074/GI/05-3

2. The extent of territorial parliamentary constituency in respect of the Union Territory of Pondicherry for the purpose of elections to the House of the People shall be as shown in Table B.
3. Where the name of a constituency as shown in Table A is distinguished by the brackets and letters “(SC)” the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes.

**Table - A**  
**ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT**

Sl. No.	Name of Assembly Constituency	Extent of the Constituency
<b>1. PONDICHERRY REGION</b>		
<b>1</b>	<b>Mannadipet</b>	<b>Mannadipet Commune Panchayat (Part)</b> - Manalipet, Chettipet, Suthukeny, Pudukuppam, Katteri, Kuppam, Thethampakkam, Kodathur, Kunichampet, Mannadipet and Vadanur
<b>2</b>	<b>Thirubhuvanai (SC)</b>	<b>Mannadipet Commune Panchayat (Part)</b> - Sorapet, Vambupet, Sellipattu, Sannasikuppam, Kalithirthalkuppam, Madagadipet, Thirubhuvanai and Thiruvandarkoil
<b>3</b>	<b>Oussudu (SC)</b>	<b>Villianur Commune Panchayat (Part)</b> - Sedarapet, Karasur, Thuthipet, Thondamanatham, Ramanathapuram, Pillaiyarkuppam, Koodapakkam, Ulaivaikkai and Oussudu, <b>Kurumbapet Gram Panchayat(Part)</b> - Ward Nos.1 to 4
<b>4</b>	<b>Mangalam</b>	<b>Villianur Commune Panchayat (Part)</b> - Ariyur, Kizhur, Sathamangalam, Mangalam, Uruvaiyar, Thirukanji, Perungalur and Manakuppam, <b>Kurumbapet Gram Panchayat(Part)</b> - Ariyapalayam Out Growth, Kottamedu Out Growth and Kanuvapet Out Growth
<b>5</b>	<b>Villianur</b>	<b>Kurumbapet Gram Panchayat(Part)</b> - Guruvappanaickenpalayam Out Growth, Arasur Out Growth, Sultanpet Out Growth, Villianur Out Growth, Valluvanpet Out Growth, Karayanpet Out Growth, Periapet Out Growth, Uthiravaginipet Out Growth, Attuvaikalpet Out Growth-, Thattanchavady Out Growth, Manavelly Out Growth, Arumbarthapuram Out Growth and Odiampet Out Growth <b>Pondicherry Municipality(Part)</b> - Ward No.42
<b>6</b>	<b>Ozhukarai</b>	<b>Ozhukarai Municipality(Part)</b> - Ward Nos.31 to 33 and 37
<b>7</b>	<b>Kadigamam</b>	<b>Ozhukarai Municipality(Part)</b> - Ward Nos.25 to 27, 35 and 36
<b>8</b>	<b>Indira Nagar</b>	<b>Ozhukarai Municipality(Part)</b> - Ward Nos.21 to 24 and 28 to 30

<b>9 Thattanchavady</b>	<b>Ozhukarai Municipality(Part) - Ward Nos.8, 18 to 20 and 34</b>
<b>10 Kamraj Nagar</b>	<b>Ozhukarai Municipality(Part)- Ward Nos.13 to 17</b>
<b>11 Lawspet</b>	<b>Ozhukarai Municipality(Part)- Ward Nos.7, 9 to 11</b>
<b>12 Kalapet</b>	<b>Ozhukarai Municipality(Part)- Ward Nos.1 to 6 and 12</b>
<b>13 Muthialpet</b>	<b>Pondicherry Municipality(Part)- Ward Nos.1 to 4 and 6 to 8</b>
<b>14 Raj Bhavan</b>	<b>Pondicherry Municipality(Part)- Ward Nos.5, 9 to 14 and 16</b>
<b>15 Oupalam</b>	<b>Pondicherry Municipality(Part)- Ward Nos.18 to 23</b>
<b>16 Orleampeth</b>	<b>Pondicherry Municipality(Part)- Ward Nos.15, 17, 24 to 26, 28 and 32</b>
<b>17 Nellithope</b>	<b>Pondicherry Municipality(Part)- Ward Nos.27, 29 to 31, 33 and 34</b>
<b>18 Mudaliarpet</b>	<b>Pondicherry Municipality(Part)- Ward Nos.35 to 38 and 40</b>
<b>19 Ariankuppam</b>	<b>Pondicherry Municipality(Part)- Ward Nos.39 and 41</b>
	<b>Pondicherry (M+OG) (Part) - Ariankuppam Out Growth, Kakayantope Out Growth and Periaveerampattinam Out Growth</b>
<b>20 Manavelly</b>	<b>Ariankuppam Commune Panchayat - Manavelly, Abishegapakkam, Tavalakuppam, Purnankuppam and Thimmanaickenpalayam</b>
<b>21 Embalam (SC)</b>	<b>Nettapakkam Commune Panchayat (Part)- Embalam, Korkadu and Karikalampakkam,</b> <b>Bahour Commune Panchayat (Part)- Aranganur, Kirumampakkam, Pillaiarkuppam and Seliamedu</b>
<b>22 Nettapakkam (SC)</b>	<b>Nettapakkam Commune Panchayat (Part)- Madukkarai, Kariamanickam, Eripakkam, Pandasozhanur and Nettapakkam,</b> <b>Bahour Commune Panchayat (Part)- Panayadikuppam, Karaiyambuthur and Manamedu</b>
<b>23 Bahour</b>	<b>Bahour Commune Panchayat (Part)- Irulansandai, Bahour, Outchimedu, Parikalpet, Kuruvinatham, Kaduvanur and Manapattu</b>

## 2. KARAIKAL REGION

<b>24 Nedungadu (SC)</b>	<b>Nedungadu Commune Panchayat - Kurumbagaram, Ponbethy, Puthakudy, Nedungadu and Melakasakudy</b>
	<b>Kottucherry Commune Panchayat - Varichikudy North, Poovam, Thiruvettakudy, Varichikudy South and Kottucherry</b>

1074 GZ/05-4

<b>25 Thirunallar</b>	<b>Thirunallar Commune Panchayat - Ambagarathur, Nallazhundur, Thevampuram, Sorakudy, Subrayapuram, Keezhavoor, Thirunallar, Thennankudy, Sethur, Sellur and Pettai</b>
<b>26 Karaikal North</b>	<b>Karaikal Municipality(Part)- Ward Nos.1 to 5, 8 and 9</b>
<b>27 Karaikal South</b>	<b>Karaikal Municipality(Part)- Ward Nos.6, 7 and 10 to 17</b>
<b>28 Neravy- T.R. Pattinam</b>	<b>Neravy Commune Panchayat - Vizhidiur, Kizhamanai and Neravy.</b>  <b>Thirumalairayan Pattinam Commune Panchayat -</b> <b>Thirumalairayanpattinam, Keezhaiyur (North), Keezhaiyur (South), Polagam and Vanjiur,</b> <b>Karaikal Municipality(Part)- Ward No.18</b>
<b>3. MAHE REGION</b>	
<b>29 Mahe</b>	<b>Mahe Municipality</b>
<b>4- YANAM REGION</b>	
<b>30 Yanam</b>	<b>Yanam Municipality</b>

Table - B

## PARLIAMENTARY CONSTITUENCY AND ITS EXTENT

Name of Parliamentary Constituency	Extent of the Constituency
<b>Pondicherry</b>	The entire area of the Union Territory of Pondicherry

**NOTE :-** Any reference in Table A to a Commune Panchayat (CP), Gram Panchayat (GP), Village, Municipality (M), Out Growth (OG), Ward or other territorial division shall be taken to mean the area comprised within that Commune Panchayat (CP), Gram Panchayat

(GP), Village, Municipality (M), Out Growth (OG) and Ward or other territorial division as on the 30<sup>th</sup> day of March, 2005

Sd/-

KULDIP SINGH, Chairman

Sd/-

B.B. TANDON, Member

Sd/-

R. NARAYANA, Member

[No. 282/Pond./2004-Vol. III]

By Order,

SHANGARA RAM, Secy.